

NCLT issues written order approving resolution plan for Jet Airways

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, June 25

THE NATIONAL COMPANY Law Tribunal (NCLT) on Friday published the written order approving Jalan Kalrock Consortium's resolution plan for grounded Jet Airways...



present. Mr Ashish Mehta, Counsel for DGCA and MoCA is also present. Order pronounced. IA No. 2081 of 2020 is allowed subject to certain directions, vide separate order," NCLT said in the order.

The applicant was State Bank of India, while the successful resolution application is Jalan Kalrock Consortium.

DGCA is the Directorate General of Civil Aviation and MoCA is the Ministry of Civil Aviation.

"All stakeholders are requested to note that the written order mentions that IA No. 2081 of 2020 (i.e. the interlocutory application relating to the approval of the resolution plan) is allowed subject to certain directions which will be issued vide a separate order," the filing said.

A separate order containing such directions has not been made available yet, it added.

On June 22, the tribunal also made it clear that it will not give any direction on the issue of airport slots for the airline, citing that the matter will be handled by the government or the appropriate authority concerned.

Financial distress forced Jet Airways, which flew for more than two decades, to suspend operations on April 17, 2019, and a consortium of lenders, led by the State Bank of India, filed an insolvency petition in June 2019, to recover outstanding dues worth over ₹8,000 crore.

On Friday, shares of Jet Airways rose nearly 5% to close at ₹115.05 apiece on the BSE.

Twitter withholds 35 tweets after legal request from Indian govt

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, June 25

TWITTER HAS "WITHHELD" 35 tweets following a legal request from the Indian government, as per information on the Lumen database.

Twitter received a legal request from the Indian government on June 21 for action against 37 tweets, a document on Lumen database showed. Given that the tweets have been withheld, the content could not be independently verified.

Upon clicking on the blocked URLs listed on the Lumen database, a message saying the tweet has been "withheld in IN in response to a legal demand" is displayed for 35 tweets. Two links displayed the message "This Tweet is unavailable".

Lumen database is an independent research project studying cease and desist letters concerning online content, and requests received by Twitter for withholding content are published on its site.

A Twitter spokesperson said: "As explained in our Country Withheld Policy, it may be necessary to withhold access to certain content in response to a valid legal demand or when the content has been found to violate local law(s)." The spokesperson said the withholdings are limited to the specific jurisdiction/country where the content is determined to be illegal.

The account holder is notified directly - by sending a message to the email address associated with the account(s), if available - so that the user is aware that Twitter has received a legal order pertaining to the account. "The legal requests that we receive are detailed in the biannual Twitter Transparency Report, and requests to withhold content are published on Lumen," the spokesperson added. Twitter had restricted 50 tweets recently after a legal request dated June 17.

SPECTRUM COMMERCIALS LIMITED. CIN: L74110DL1985PLC317450. Regd. Office: C-2/12, First Floor, Front Portion, Ashok Vihar, Phase-II, New Delhi-110052. Tel: 01147035262. NOTICE Pursuant to Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the advance notice of the Board Meeting as scheduled to be held on June 30, 2021 to inter-alia consider and approve the Audited Financial Results for the quarter ended March 31, 2021 and the year to date results for the period from April 01, 2020 to March 31, 2021. For Spectrum Commercials Limited Sd/- Yogansh Kansal Director Date: 25.06.2021 Place: Delhi DIN: 05346810

BENARES HOTELS LIMITED. Corporate Identification No. (CIN) : L55101UP1971PLC003480. Registered Office : Nadesar Palace Compound, Varanasi - 221002, Tel No. 0542-6660001. Corporate Office: Taj Palace, Sardar Patel Marg, New Delhi - 110021, Phone: 011 6650 3549/3704. Email: investorrelations@tajhotels.com Website: www.benareshotelslimited.com. NOTICE TO MEMBERS Members of Benares Hotels Limited (the Company) are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (Rules), including any statutory modifications or re-enactment thereof for the time being in force, the Company is required to transfer the shares for which dividend has not been claimed for 7 (seven) consecutive years to the demat account of Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority in the prescribed manner. Adhering to the requirements set out in the Rules, the Company has already sent individual communications to the concerned Members at their latest available addresses whose shares are required to be transferred to demat account of IEPF Authority as per the aforesaid Rules for taking appropriate action. Further, the Company has uploaded on its website www.benareshotelslimited.com, full details of such Members and their shares which are liable for transfer to demat account of IEPF Authority. Accordingly, the Members are requested to immediately claim the unpaid/unclaimed dividend amount due for the year 2013-14 and respond latest by August 31, 2021 to avoid such shares being transferred to demat account of IEPF Authority. Members are required to provide following details in all communications: 1. Folio No. or DP ID and Client ID 2. Name of the Member 3. Contact No. 4. Email id. Also provide self-attested KYC documents of the Member, like PAN, cancelled cheque leaf along with a document as address proof. Members may note that after the shares have been transferred to IEPF, they can claim the said shares from IEPF Authority by filing Form IEPF-5, as prescribed under the said Rules. The Rules and the application Form IEPF-5, for claiming back the shares/ dividend, are available on the website of the Company www.benareshotelslimited.com as well as website of MCA www.iepf.gov.in. The unclaimed dividend for the year 2012-13 and prior to that has already been transferred to the IEPF, as required under Section 124(5) of the said Act. In case the Company does not receive any response from the concerned Member(s), the above said shares will be transferred to IEPF at appropriate prescribed date. Please feel free to contact the office of the Registrar & Share Transfer Agent of the Company at the address available on the website of the company www.benareshotelslimited.com/en-in/contact-us in case of any queries. By order of the Board of Directors VANIKA MAHAJAN Company Secretary New Delhi

Superhouse Limited. Registered Office : 150 Feet Road, Jajmau, Kanpur. CIN: L24231UP1980PLC004910. Website: www.superhouse.in. Email Id: share@superhouse.in. EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31ST MARCH, 2021 (Rs. In Lacs). Table with columns: S. No., Particulars, Standalone (Quarter Ended, Year Ended), Consolidated (Quarter Ended, Year Ended). Includes notes on audit and financial results.

ALCHEMIST CORPORATION LIMITED. CIN: L74899DL1993PLC055768. Regd. Office: R-4, Unit No-103, 1st Floor, Khirki Extension Main Road, Malviya Nagar, New Delhi-110017. Email: info@alchemist-corp.com | Phone: 011-29544474. AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND FINANCIAL YEAR ENDED MARCH 31, 2021 (Rs. In Lakh except EPS data). Table with columns: Particulars, Standalone (Quarter Ended, Year Ended), Consolidated (Quarter Ended, Year Ended). Includes notes on audit and financial results.

JAYSYNTH DYESTUFF (INDIA) LIMITED. CIN: L24114MH1985PLC035564. Registered Office: 301, Sumer Kendra, P. B. Marg, Worli, Mumbai - 400 018. Tel. No.: +91 22 3042 3048 • Fax No.: +91 22 3042 3434 • Website: www.jaysynth.com • E-mail Id: jsec@jaysynth.com. Extract of Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31st March, 2021 (₹ in lakhs, except EPS). Table with columns: Sr. No., Particulars, Standalone (Quarter Ended, Year Ended), Consolidated (Quarter Ended, Year Ended). Includes notes on audit and financial results.

PUNJAB & SIND BANK. Roshanpura, New Delhi 110043, Tel : 011 - 25016466. POSSESSION NOTICE (for immovable property) Notice is hereby given under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (No.3 of 2002) and in exercise of the powers conferred under section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice on the date mentioned below in the table and stated hereinafter calling upon the borrower and guarantors to repay the amount within 60 days from the date of receipt of said notice. The borrowers and guarantors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and guarantors and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement) Rules, 2002 on the date mentioned below in the table. The borrowers and guarantors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of Punjab & Sind Bank for the amount and interest thereon. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. Table with columns: Name of Borrower and Guarantor, Description of the property mortgaged / charged, Date of Demand Notice, Date of Possession, Amount O/s.

CHANDRA PRABHU INTERNATIONAL LIMITED. CIN- L51909DL1984PLC019441. Regd. Off. : 14, Rani Jhansi Road, New Delhi-110 055. Corporate office : Suite 522, 5th Floor, Galleria Towers, DLF Phase IV, Gurugram-122009, Haryana. Email ID: info@cpil.com, cs@cpil.com. Audited Financial Results for Quarter and Year Ended 31st March- 2021. EXTRACT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH 2021 (Rs. In Lacs). Table with columns: Particulars, Quarter ended (31-03-2021, 31-12-2020), Year ended (31-03-2021, 31-03-2020). Includes notes on audit and financial results.

इस मानसून तो नाले साफ होने से रहे

05 स्थान रिपोर्टर

शहर के बड़े नालों की सफाई इस मानसून में तो नहीं हो सकेगी। पहले नगर आयुक्त गौरांग राठी ने 20 जून तक समन्यसिमा तय की थी, जिसे सामान्य विभाग ने 30 जून तक बढ़ा दिया था, लेकिन अब भी दस बड़े नालों की सफाई नहीं हो सकी है। पिछले महीने बैटक के दौरान अधिकारियों ने नालों की तल्लू से सफाई करने की बात कही थी, लेकिन वास्तव में किसी भी बड़े नाले की इस पैमाने पर सफाई नहीं कराई गई है। मुख्य मामलों से गुजर रहे नाले भी बजबजा रहे हैं, जिससे इस बार मानसून में भी शहर को जलमग्नता का दर्श झेलना पड़ेगा।



सुंदरपुर की राजमर बस्ती के पास नाले की हालत ऐसी हो चुकी है। • हिन्दुस्तान

सुंदरपुर राजमर बस्ती

तीन साल पहले टेंडर हुआ था। पिछले साल थोड़ी बहुत सफाई की गई थी। नाले पर अतिक्रमण की रिपोर्ट नगर निगम लगाता है, लेकिन जिन हिस्सों में जैसीबी या कर्मचारियों से सफाई कराई जा सकती है, वहां भी काम नहीं होता है। इसका खामियाजा सुंदरपुर सब्जी मंडी, राजमर बस्ती समेत अन्य आसपास के इलाकों में पड़ता है।

मुसीबत

- नगर निगम की ओर से तय समय सीमा समाप्त हो चुकी
- अब सामान्य विभाग ने महीने के 30 जून तक की मियाद तय की

सिंगरा चौराहा

नगर निगम मुख्यालय से कुछ मीटर दूर इस इलाके में नाले की सफाई शुरू नहीं हुई है। जलभराव के लिए यह काफी हद तक जिम्मेदार है। इस साल नाले की पटिया तक नहीं हटाई गई है। नाला सड़क की ऊंचाई से कुछ नीचे ही बजबजा रहा है और कुछ दूर की तेज बारिश के बाद पानी सड़क पर आ जाएगा।



करौंदी में कब्रिस्तान के पीछे नाला गंदगी से पटा पड़ा है।

नगवा

बारिश में नाला उफानकर गंदा पानी सड़क पर आ जाता है। पिछले साल बिना टेंडर के भी सफाई हुई थी। दो सप्ताह पहले तीन-चार दिन सफाई हुई लेकिन बारिश होने पर काम बंद कर दिया गया। संगमपुरी कॉलोनी, रामेश्वर मठ, दलित बस्ती, संत रविदास पार्क में जलभराव होता है।

कमिश्नरेंट क्षेत्र की पहचान हो सकेगी

वाराणसी | कार्यालय संवाददाता

जनपद में पुलिस कमिश्नरेंट प्रणाली लागू होने के बाद इसके क्षेत्र का सीमांकन भी किया जाएगा। ताकि लोग कमिश्नरेंट की सीमा क्षेत्र को पहचान सकें। इसके लिए सीमा पर स्थित प्रमुख मामलों पर पुलिस कमिश्नरेंट वाराणसी का साइन बोर्ड लगाया जाएगा। सीमा पर प्रमुख स्थानों के चिह्नानकन के बाद इसकी तैयारी की जा रही है।

सीमांकन होने के बाद मिट सकेगा विवाद

सीमांकन होने और साइन बोर्ड लगाने से थाना क्षेत्रों में सीमा विवाद भी मिट सकेगा। हाल ही में कुछ घटनाएं हुईं, जिसमें सीमा विवाद को लेकर उलझन की स्थिति रही। रामनगर में हादसे में मौत के बाद कमिश्नरेंट सीमा और वंदोली जगदद की सीमा को लेकर घंटों लाश पड़ी हुई थी। लेखपाल की ओर से बताये जाने के बाद रामनगर पुलिस पहुंची थी। इसी तरह एक थोलाघड़ी के मामले में रोहनिया और चितहपुर क्षेत्र को लेकर पुलिस पीड़ित को एक से दूसरी जगह टरकाती रही।

कुल 12 पुलिस स्टेशन हैं। जबकि बाकी शहरी क्षेत्र के 17 थाना क्षेत्रों में कमिश्नरेंट प्रणाली लागू है। शहरी क्षेत्र के पुलिस कमिश्नरेंट की सीमा में प्रवेश करने पर लोगों को जानकारी हो सके, इसके लिए कमिश्नरेंट प्रशासन की ओर से कवायद

की जा रही है। हाल ही में चिन्हित 35 प्लॉट पर कमिश्नरेंट पुलिस और सीमावर्ती देहात थाना पुलिस के संयुक्त प्रयास से बोर्ड लगाया जाएगा। इस पर कमिश्नरेंट क्षेत्र में प्रवेश व थाने की सीमा का भी जिक्र होगा।

जमीन विवाद में चलीं लाटियां, 12 लोग घायल



समनपुर गोगवा गांव में शुक्रवार को जमीन पर कब्जे को लेकर भिड़ते दो पक्षों के लोग।

वाराणसी | कार्यालय संवाददाता

जंसा थाना क्षेत्र के सतनपुर गोगवा गांव में शुक्रवार सुबह आबादी की जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में जमकर लाटियां चलीं। इसमें दर्जन भर लोग घायल हो गये। जंसा पुलिस ने 10 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। वंश नारायण पटेल के पड़ोसी दीपक पटेल के बीच आबादी की जमीन को लेकर विवाद है। शुक्रवार को दीपक पटेल के पक्ष के लोग जबबरन जमीन पर कब्जा करने लगे। वंश नारायण पक्ष के लोगों ने विरोध किया। विवाद संघर्ष में बदल गया। दोनों पक्षों से जमकर लाटियां-डंडे चले, जिससे वंश नारायण पक्ष के संदीप कुमार, प्रदीप कुमार, आयुष, भगवान् दीवो, नंदकुमार, धीराजी, जिला देवी गंधीर रूप से घायल हो गईं। दूसरे पक्ष से मूलचंद, राजेंद्र प्रसाद, संतोष कुमार, सुबेदार लाल घायल हो गये।

कब्ज, गैस? पेट करे साफ

कैस्टोफीन

टेबलेट व हर्बल चूर्ण RELIEF FROM CONSTIPATION

TECHNOPHARM (P) LTD. Ph: 08601841515

कब्ज, गैस एसिडिटी

पेट सफा टेबलेट्स

Dr. Juneja's

पेट सफा

Natural Laxative TABLETS

EFFECTIVE RELIEF FROM CONSTIPATION

NATURAL LAXATIVE TABLETS

पेट सफा तो हर रोग दफा

खड़े ट्रक में मिड़ा डीसीएम, दो जख्मी

मिर्जापुराद। मिर्जापुराद थाना क्षेत्र के राखोना गांव के पास एनएच पर शुक्रवार की तड़के चार बजे प्रयागराज से वाराणसी जा रही डीसीएम पहले से खड़े ट्रक में पीछे से जा भिड़ी। इसमें डीसीएम के आगे हिस्से के परखचे उड़ गए। चालक व अन्य एक युवक केबिन में फंस गये। दो घंटे की मशकत के बाद निकाले जा सके। दोनों को गंधीर हाल में बौपच्यू ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। फिरोजबाद निवासी अशरफ अली (26) डीसीएम पर कानपुर से हाईवे पर का सामान लादकर वाराणसी की तरफ जा रहा था।

पानी टंकी पर किशोर चढ़ा, अटकीं सांसें

जख्खनी। रोहनिया थाना क्षेत्र के भवानपुर गांव में जल निगम की टंकी पर शुक्रवार को एक किशोर चढ़ गया। परिजनों ने उसे किसी बात पर डांट दिया था। किशोर कूदने की धमकी देने लगा। करीब घंटे भर निम्नत के बाद वह उतरा तो लोगों ने राहत की सांस ली। गांव में पानी टंकी की जख्खनी ही है। इससे जलापूर्ति नहीं होती। शुक्रवार को गांव का एक किशोर अचानक घर से निकला और पानी टंकी पर चढ़ गया। कूदने की धमकी देने लगा। परिजन पहुंचे तो उससे उतरने के लिए निम्नत करने लगे।

घटनाक्रम

राजाबाजार में पानी लेने के विवाद में मारपीट

वाराणसी। नदेसर के राजाबाजार में हंडपंप से पानी लेने पर दो पक्षों में मारपीट हो गई। मामले में माधुरी देवी ने उषा देवी, लखीचंद व सुजीत के खिलाफ व सुमन ने माधुरी, सुभाष चंद व आदित्य के खिलाफ केस कराया है।

कैथी बारी में चोरों ने नकदी-गहने उड़ाए

वाराणसी। कैथी बारी में गुरुवार रात चोरों ने सुरेन्द्र प्रताप यादव के घर से रुपये व गहने पर हाथ साफ कर दिया। सुरेन्द्र पश्चिम बंगाल में अध्यापक हैं। उनकी मां भी इन दिनों उनके साथ गई हुई थीं। शुक्रवार भोर में सुरेन्द्र के पुत्र आशीष यादव, उनकी पत्नी व बेटी खाना खाकर सो गए। आभूषण समेत 10 हजार ले गए।

बाइक से टकराया सांड सवार की टूटी सांस

चौबेपुर। चंद्रवती गांव के समीप गुरुवार रात कैथी बाजार से सैलान् बंद कर बाइक से चर जा रहा था कि असलम हाशामी (43) सांड से टकराकर गंधीर रूप से घायल हो गया। उसे ग्रामीणों ने वाराणसी स्थित एक निजी अस्पताल भर्ती कराया। शुक्रवार भोर में असलम की मौत हो गई। वह चंद्रवती गांव का था।

माई को बहन की आपत्तिजनक तस्वीर मेजी

बड़गांव। थाना क्षेत्र के एक गांव में एक भाई के मोबाइल पर उसकी बहन की आपत्तिजनक फोटो भेजकर अश्लील मैसेज करने मामले में बड़गांव पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। युवक ने साक्ष्य के साथ शिकायत पत्र दिया। बताया कि महेंद्र उर्फ बुल्लू नामक युवक 24 जून को उसके मोबाइल पर उसकी बहन की फोटो भेजकर उसके बारे में अश्लील मैसेज किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी।

झारखंड पुलिस ने लूट और चोरी में पकड़ा

वाराणसी। लंका में लगातार चोरी और लूट की घटना को अंजाम देने के लिए एक आरोपित को झारखंड पुलिस टीम ने पकड़ा है। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जाती रही। लंका के नगवा चौकी प्रभारी ने बताया कि वहां की पुलिस पूछताछ कर रही है। कई मामलों में उसकी सिलजता सामने आई है।

यातायात इयूटी में लगे जवानों का भुगतान नहीं

वाराणसी। यातायात व्यवस्था संचालने के लिए लगाए गए टीआरवी जवानों को दो साल बाद भी भुगतान के लिए भटकना पड़ रहा है। चार दिन की 142 इयूटीयों का भुगतान अप्रैल 2019 से रुका है। तब से जवान रोज 300 रुपये की दर से भुगतान के लिए भटक रहे हैं। शुक्रवार को मंडलायुक्त से मिलकर भुगतान की गुहार लगाई।

पुलिस ने की फुट पेट्रोलिंग

वाराणसी। पुलिस कमिश्नरेंट के अधिकारियों ने शुक्रवार को थाना पुलिस के साथ फुट पेट्रोलिंग की। घंटों पर भी प्रमण कर लोगों को घर रहने की अपील की। कोतवाली क्षेत्र में अंबिया मण्डी, कतुआपुरा, धरहरा, आदमपुर में कर्जकापुरा, कौनिया, जलालीपुरा, लाटभैरव, दशाश्वमेध में मदनपुरा, जंगमबाड़ी, गौदालिया, चेतना में पानदरीबा, काली महाल व बेनिया, सिंगरा में लल्लापुरा, जैतपुरा में सरैया, नख्खीघाट, भैलपुर में बजरडीहा, रेवड़ी तालाब, भदनी, लक्सा में रामपुरा, नई सड़क, लंका में सामने घाट, साकेत नगर आदि स्थानों पर गश्त की।

कमिश्नरेंट पुलिस फेसबुक और कू पर भी

वाराणसी। पुलिस आयुक्त ए सतीश गुणेश ने बताया कि कमिश्नरेंट पुलिस का अब फेसबुक पेज भी है। इस कू एप पर भी फालो किया जा सकेगा। फेसबुक पेज के लिए <https://www.facebook.com/policecommissioneratevaranasi/> लिंक पर क्लिक किया जा सकता है। जबकि कू एप पर फालो करने के लिए <https://www.kooapp.com/profile/Varanasipolice> पर जा सकते हैं।

केश किंग

भारत का No.1 हेयरफॉल एक्सपर्ट

बाल झड़ना रोके | नए बाल उगाए

"केश किंग है भारत का नं. १ आयुर्वेदिक तेल जो न केवल बालों का झड़ना रोके", साथ ही नए बाल उगाने में भी मदद करे।

क्लिनिकल टेस्ट ने प्रमाणित किया है कि केश किंग दो गुना ज्यादा असरदार है। और अब इसके साथ है नया आविष्कारी डीप रूट कॉम्ब" जो जड़ों तक तेल पहुंचाए।

मैंने खुद केश किंग तेल और शैम्पू इस्तेमाल किया...and it really worked for me."

Certificate of Efficacy

A. Pearce Trichology Hair Experts

Examed Each King Shampoo and Hair Medication Ayurvedic Oil.

Dr. Juneja

जूही चावला, बॉलीवुड सुपरस्टार

India's No.1

विख्यात हेयर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रमाणित

नए बाल उगाए

डीप रूट कॉम्ब™

शैम्पू ₹ 60/- से शुरू

21 AYURVEDIC HERBS

Kesh King

तेल ₹ 80/- से शुरू

Kesh King

शैम्पू ₹ 60/- से शुरू

Kesh King

INDIA'S No.1 HAIR FALL EXPERT

shop.keshking.com

सीएसआईआर — राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला

(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्)

जमशेदपुरा — 831007, झारखंड (भारत)

www.nmlindia.org

सं.—2एनएएच(158)/2021 ई—1	नोटिस	दिनांक: 25.06.2021
विषय—आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि का विस्तार : विज्ञापन संख्या — 04/2021 साइटिस्ट / सीनियर साइटिस्ट / डिप्टि साइटिस्ट—reg के पदों के लिए		
आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि W.F.I विज्ञापन संख्या: 04/2021 यानी 28.06.2021 (17:00 बजे तक) को विभिन्न राज्यों में कोविड-19 के कारण वर्तमान लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए 12.07.2021 (17:00 बजे तक) तक बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में कई अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात ऐसा किया जा रहा है।		
संशोधित कार्यक्रम निम्नानुसार होगा:		
ऑनलाइन आवेदन जमा	मौजूदा अंतिम तिथि	संशोधित अंतिम तिथि
अपेक्षित दरतावेज के साथ आवेदन के फ़िंट आउट की हार्ड कॉपी की प्राप्ति	28.06.2021 (17:00 बजे तक)	12.07.2021 (17:00 बजे तक)
13.07.2021		27.07.2021
प्रशासन निबंधक		

बनारस होटल्स लिमिटेड

कॉर्पोरेट पहचान संख्या : एल55101पूषी971पौएलसी03480

पंजीकृत कार्यालय : नदेसर प्लेस कंपाउंड, वाराणसी - 221002, टेली. नं. : 0542-6660001

कॉर्पोरेट ऑफिस : ताज प्लेस, सरदार पटेल मार्ग, नई दिल्ली - 110021 टेली. : 011 6650 3549/3704

ईमेल: investorrelations@bnareshotels.com वेबसाइट: www.benareshotelslimited.com

सदस्यों को सूचना

बनारस होटल्स लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 124 (6) के प्रावधानों (अधिनियम) तथा उनके साथ पढ़े जाने पर निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, अंतरण तथा धन-वापसी) नियम 2016 (नियम) उनके उद्योग के समग्र समय पर लागू किन्हीं भी वैधानिक रूपांतरणों अथवा पुनराधिनियमों के अनुसार, कंपनी के लिए यह आवश्यक है कि वह निम्न शेषों के लिए 7 क्रमिक वर्षों के लाभांश का दावा नहीं किया गया है, उन्हें निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि प्राधिकरण के डोमैट खतों में निर्धारित ढंग से अंतरित कर दे।

उपरोक्त नियमों में निर्धारित आवश्यकताओं का अनुसरण करते हुए कंपनी संबंधित सदस्योंको, जिनके शेषों को उपरोक्त नियमों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई के लिए आईपीएफ प्राधिकरण के डोमैट खतों में अंतरित करना आवश्यक है, उनके नवीनतम उपलब्ध पत्रों पर व्यक्तिगत संदेश भी भेजा जा चुका है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने ऐसे सदस्योंका और आईपीएफ प्राधिकरण के डोमैट खतों में अंतरण किए जाने के अधीन शेषों के पूर्ण विवरण अपनी वेबसाइट www.benareshotelslimited.com पर अपलोड कर दिया है। इसी के अनुरूप, सदस्यों से निवेदन किया जाता है आर्थिक वर्ष 2013-14 से संबंधित बिना चुकानी/बिना दावा की गयी देय लाभांश राशि का 31 अगस्त, 2021 के पहले तत्काल दावा करें ताकि ऐसे शेषों को आईपीएफ प्राधिकरण के डोमैट खतों में अंतरित किये जाने से बचा जा सके।

सदस्यों को सभी संचार में निम्नलिखित विवरण देना होगा: 1) फॉलियो नंबर या डोपी आईडी और ग्राहक आईडी 2) सदस्य का नाम 3) फोन नंबर 4) ईमेल आईडी। सदस्य स्वयं-प्रमाणित केवायसी दरतावेज, जैसे पैत्र, रह, किए गए चेक पत्र, साथ में पत्र के प्रमाण के रूप में दरतावेज प्रदान करें।

सदस्य यह ध्यान दें कि शेषों आईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित कर दिये जाने के बाद भी, सदस्य आईपीएफ प्राधिकरण से शेषों / लाभांश वापस लेने का दावा आईपीएफ-5 के फार्म से कर सकते हैं। शेषों / लाभांश वापस लेने का दावा करने के लिए नियम और आवेदन पत्र आईपीएफ - 5, कंपनी की वेबसाइट www.benareshotelslimited.com और एमसीए की वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है।

अधिनियम की धारा 124(5) के अनुसार आर्थिक वर्ष 2012-13 तक का दावा न किया हुआ लाभांश आईपीएफ में अंतरित किया गया है। यदि कंपनी को संबंधित सदस्य(ए) से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी निर्धारित तारीख को ऐसे शेषों को आईपीएफ में अंतरित करेगी।

किसी भी प्रश्न के लिए कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के कार्यालय से कंपनी की वेबसाइट www.benareshotelslimited.com/ en-in/contact-us पर उपलब्ध पत्र पर कृपया निस्कोच संपर्क करें।

संचालक मंडल के आदेशपर,

नई दिल्ली वनिका महाजन
कंपनी सचिव



RAJ OIL MILLS LTD.

CIN: L15142MH2001PLC133714
 ADD.: 224-230 BELLASIS ROAD MUMBAI - 400008
 Email: contact@rajoilmills.com | Phone: 022-2302 1996/98
 Website: www.rajoilmills.com

STATEMENT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2021

(Rs. In Lakhs)

SR No.	Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
		31/03/2021	31/12/2020	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
1.	Total Income From Operations	2757.14	2690.05	2058.26	10354.47	8288.37
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	17.95	116.78	(263.56)	467.05	106.87
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	17.95	116.78	(263.56)	467.05	106.87
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(29.24)	102.56	(188.30)	407.12	148.45
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(15.18)	102.56	(188.80)	421.19	147.95
6.	Equity Share Capital	1498.87	1498.87	1498.87	1498.87	1498.87
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	(2840.78)	(2825.60)	(3261.96)	(2840.78)	(3261.96)
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)					
i) Basic		(0.10)	0.68	(1.26)	2.81	0.99
ii) Diluted		(0.10)	0.68	(1.26)	2.81	0.99

Note:

- The above result for the Quarter and Year ended 31st March, 2021 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Director in their meeting held on 24th June, 2021.
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Results is available on the websites of Bombay Stock Exchange (www.bseindia.com), National Stock Exchange (www.nseindia.com) and Company www.rajoilmills.com.

FOR Raj Oil Mills Limited
 SD/-
 Parvez Shafee Ahmed Shaikh
 Chairman
 DIN: 00254202

Place: Mumbai

Date: June 24, 2021

AJANTA SOYA LIMITED
 CIN L15494RJ1992PLC016617
 Tel.: 911-6176727, 911-6128880

Regd. Office & Works : SP-916, Phase - III, Industrial Area, Bhiwadi - 301019, Rajasthan, India

Corp. Office : 12th Floor, Bigjo's Tower, A-8, Netaji Subhash Place, Wazirpur District Centre, Delhi-110034

Phone : 011-42515151; Fax : 011-42515100
 WEBSITE: www.ajantasoya.com, Email - cs@ajantasoya.com

Extract of Standalone Audited Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2021

(Rs. in Lakhs except EPS)

Sl No.	Particulars	Standalone				
		Quarter ended 31.03.2021	Quarter ended 31.12.2020	Quarter ended 31.03.2020	Year ended 31.03.2021	Year ended 31.03.2020
		Audited	Un-audited	Audited	Audited	Audited
1.	Total Income from operations*	26345.07	24251.81	20073.41	93902.61	76168.64
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extra Ordinary Items)	1822.43	1160.00	184.70	4058.28	1285.13
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	1822.43	1160.00	184.70	4058.28	1285.13
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	947.28	767.18	169.28	2514.09	979.84
5.	Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after Tax)]	951.74	769.12	149.93	2526.31	973.59
6.	Equity Share Capital	1609.66	1609.66	1609.66	1609.66	1609.66
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	6326.16 (as on 31.03.2021)	3799.85 (as on 31.03.2020)	3799.85 (as on 31.03.2020)	6326.16	3799.85
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -					
Basic:		5.88	4.77	1.05	15.62	6.09
Diluted:		5.88	4.77	1.05	15.62	6.09

Note:

- *Total Income from operations consists of "Revenue from Operations and Other Income".
- This Statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013, and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.
- The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter and year ended March 31, 2021 Audited Financial Results are available on the Stock Exchange websites: www.bseindia.com and on Company's website www.ajantasoya.com.
- The above results were reviewed by the Audit committee, and thereafter approved by the Board of Directors in their meetings held on 25th June, 2021.
- Previous year periods figures have been regrouped/reclassified wherever necessary.

On behalf of the Board
For Ajanta Soya Limited
 Sushil Goyal
 Managing Director
 (DIN: 00125275)

Place: Delhi

Date: 25th June, 2021

TATA MOTORS LIMITED

Registered Office: Bombay House, 24, Homi Mody Street, Mumbai - 400001.
 Tel: +91 22 6665 8282 Email: inv_re@tatomotors.com Website: www.tatomotors.com
 CIN - L28920MH1945PLC004520

Public Notice - 76th Annual General Meeting

This is to inform that in view of the continuing COVID-19 pandemic, the 76th Annual General Meeting ('AGM' / 'Meeting') of the Members of Tata Motors Limited ('the Company') will be convened through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM'), without the physical presence of the Members at a common venue in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, read with General Circular Nos. dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and January 13, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars" and Circulars dated May 12, 2020 and January 15, 2021 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars").

The 76th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Tata Motors Limited will be held on Friday, July 30, 2021 at 3:00 p.m. (IST) through VC/OAVM facility provided by National Securities Depository Limited ('NSDL') to transact the businesses as set out in the Notice convening the AGM.

The Notice of the AGM along with the Integrated Report & Annual Accounts for the Financial Year 2020-21 (the 'Integrated Report') of the Company will be available on the website of the Company - www.tatomotors.com and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The AGM Notice will also be available on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nseindia.com.

Members can attend and participate in the AGM ONLY through VC/OAVM facility, the details of which will be provided by the Company in the Notice of the AGM. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

The Notice of the AGM along with the Integrated Report will be sent electronically to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company / Registrars & Transfer Agent ('Registrar/RTA') / Depository Participants ('DPs'). As per the SEBI Circular, no physical copies of the Notice of the AGM and Integrated Report will be sent to any Shareholder. Members who have not yet registered their email addresses with the Company / RTA are requested to follow the process mentioned below on or before 5.00 p.m. (IST) on Tuesday, July 20, 2021, for registering their e-mail addresses to receive the Notice of AGM and Integrated Report electronically and to receive login ID and password for remote e-voting is as under:

- Visit the link https://tclp.linkintime.co.in/EmailReg/email_register.html
- Select the name of the Company from dropdown.
- Enter details in respective fields such as DP ID and Client ID (if you hold the shares in demat form) / Folio no. and Certificate no. (if shares are held in physical form), Name of the Shareholder, PAN details, mobile number and e-mail ID.
- System will send OTP on mobile number and e-mail ID.
- Enter OTP received on mobile number and e-mail ID and submit.

NSDL will email the Notice of this AGM along with the Annual Report 2020-21 as also the remote e-voting user ID and password, within 48 hours of successful registration of the email address by the Member. In case of any queries, Members may write to csg-unit@tclplindia.co.in or evoting@nseindia.com.

For permanent registration of the e-mail address, Members holding shares in demat form, are requested to update the same with their concerned RTA and in case the Members are holding shares in physical form, are requested to update the same with the DP by writing to them at csg-unit@tclplindia.co.in

The Company is pleased to provide remote e-voting facility ('remote e-voting') of NSDL to all its members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company shall also provide the facility of voting through remote e-voting system during the Meeting. Detailed procedure for remote e-voting before the AGM / during the AGM forms part of the Notice of the AGM.

For Tata Motors Limited
 SD/-
 Hoshang K Sethna
 Company Secretary

Mumbai June 25, 2021 exp.epapr.in

CLASSIFIED CENTRES IN MUMBAI

Sanjeev Communication
 Fort,
 Phone : 40024682/ 40792905.

S. Arts Advtg.
 Masjid
 Phone: 23415111

Taj Publicity Services,
 Bivalda (W),
 Phone : 2305 4894,
 Mobile : 9892011371.

Yugambha Advertising,
 Girgaon,
 Phone : 2386 8065,
 Mobile : 9869074144.

Aaryan Publicity
 Dadar (E),
 Phone: 022-65881876
 Mobile: 9320111876

R. Y. Padhye Publicity Services,
 Dadar (W),
 Phone : 2422 9241/
 2422 0445.

DATEE Advertising,
 Dadye Bhavan, Dadar (W)
 Mobile : 8452846979/ 9930949817

Hook Advertisement
 Dadar
 Mobile : 8691800888

Central Advertising Agency,
 Mahim (W),
 Phone : 24468656 / 24465555

Charudatta Advertising,
 Mahim (W),
 Phone : 2421461

Joy Publicity,
 Dadar (E),
 Phone : 24124640

Pallavi Advtg.
 Dadar (W),
 Mobile: 9869109765

Shree Swami Samarth Advertising,
 Dadar (W),
 Phone : 24440631
 Mobile : 9869131962

Syhas Arts,
 Dadar (W),
 Phone : 24304897

Time Advertising,
 Matunga (W),
 Phone : 2446 6191

Vijaya Agencies,
 Dadar (W),
 Phone : 2422 5672,
 Mobile : 9920640689

Media Junction,
 Matunga (W),
 Phone: 022-66393184/ 022-6632340
 Mobile: 9820295353/ 9821656198

Achievers Media
 Bandra (W),
 Phone : 22691584



PHARMACEUTICALS LIMITED

Registered Office: 8/2, Mahalaxmi Chambers, 22, Bhulabhai Desai Road, Mahalaxmi, Mumbai - 400 026.

Corporate Office: Glenmark House, B. D. Sawant Marg, Chakala, Off Western Express Highway, Andheri (East), Mumbai - 400 099.
 Tel No.: +91-22-4018 9999 Fax No.: +91-22-4018 9986

Email: complianceofficer@glenmarkpharma.com Website: www.glenmarkpharma.com
 CIN: L24299MH1977PLC019982

NOTICE TO SHAREHOLDERS

For transfer of shares to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) (As per Section 124(6) of the Companies Act, 2013)

In terms of the requirement of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting Audit Transfer and Refund) Rules 2016 ("the Rules"), the Company is required to transfer the shares in respect of which the dividend remains unpaid or unclaimed for a period of seven consecutive years or more to the IEPF Account established by the Central Government.

The Company has sent individual communication to the concerned shareholders who have not encashed the dividend for the financial year 2013-14 and all subsequent dividends declared and paid by the Company which are liable to be transferred to IEPF as per the said Rules.

A list of such shareholders who have not encashed their dividends for seven consecutive years and whose share are therefore liable for transfer to the IEPF Account is displayed on the website of the Company <http://www.glenmarkpharma.com/investors/shareholders-corner>

Shareholders are requested to forward the requisite documents as mentioned in said communication to the Company's Registrar and Share Transfer Agent on or before 24th August, 2021, to claim the shares and unclaimed dividend amount(s). Notice is hereby given that in the absence of receipt of a valid claim by the shareholder, the Company would be transferring the said shares to IEPF Account without further notice in accordance with the requirement of said rules.

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF pursuant to the said Rules. Upon such transfer, shareholders can claim the transferred shares along with dividends from the IEPF, for which details are available at www.iepf.gov.in

For any information/clarifications on this matter concerned shareholders may write to the Company at complianceofficer@glenmarkpharma.com or contact Registrar & Share Transfer Agent of the Company i.e. M/s. KFin Technologies Private Limited following address: Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032, Toll Free No.: 1800-3454-001, Email: einward.ris@kfinetech.com Website: www.kfinetech.com.

For Glenmark Pharmaceuticals Limited

Sd/

Harish Kuber

Company Secretary & Compliance Officer

Place: Mumbai

Date: June 25, 2021

BENARES HOTELS LIMITED

Corporate Identification No. (CIN) : L55101UP171PLC003480

Registered Office : Nadesar Palace Compound, Varanasi - 221002, Tel No. 0542-6660001

Corporate Office: Taj Palace, Sardar Patel Marg, New Delhi - 110021, Phone: 011 6650 3549/3704

Email: investorrelations@tajhotels.com Website: www.benareshotelslimited.com

NOTICE TO MEMBERS

Members of Benares Hotels Limited (the Company) are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (Rules), including any statutory modifications or re-enactment thereof for the time being in force, the Company is required to transfer the shares for which dividend has not been claimed for 7 (seven) consecutive years to the demat account of Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority in the prescribed manner.

Adhering to the requirements set out in the Rules, the Company has already sent individual communications to the concerned Members at their latest available addresses whose shares are required to be transferred to demat account of IEPF Authority as per the aforesaid Rules for taking appropriate action. Further, the Company has uploaded on its website www.benareshotelslimited.com, full details of such Members and their shares which are liable for transfer to demat account of IEPF Authority.

Accordingly, the Members are requested to immediately claim the unpaid/unclaimed dividend amount due for the year 2013-14 and respond latest by August 31, 2021 to avoid such shares being transferred to demat account of IEPF Authority.

Members are required to provide following details in all communications: 1. Folio No. or DP ID and Client ID 2. Name of the Member 3. Contact No. 4. Email id. Also provide self-attested KYC documents of the Member, like PAN, cancelled cheque leaf along with a document as address proof.

Members may note that after the shares have been transferred to IEPF, they can claim the said shares from IEPF Authority by filing Form IEPF-5, as prescribed under the said Rules. The Rules and the application Form IEPF-5, for claiming back the shares/ dividend, are available on the website of the Company www.benareshotelslimited.com as well as website of MCA www.iepf.gov.in.

The unclaimed dividend for the year 2012-13 and prior to that has already been transferred to the IEPF, as required under Section 124(5) of the said Act.

In case the Company does not receive any response from the concerned Member(s), the above said shares will be transferred to IEPF at appropriate prescribed date.

Please feel free to contact the office of the Registrar & Share Transfer Agent of the Company at the address available on the website of the company www.benareshotelslimited.com/en-in/contact-us in case of any queries.

By order of the Board of Directors

VANIKA MAHAJAN

Company Secretary

New Delhi



THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LTD.

(A Government of India Enterprise),
 (CIN L74899DL1956GOI002674)

Regd. Office: Jawahar Vyapar Bhawan, Tolstoy Marg, New Delhi- 110001
 Ph. 011-23313177, Fax: 011-23701123, Website : www.stclimited.co.in

Statement of Financial Results for the Period ended Mar 31st, 2021

(Rs. Crore)

S. NO.	PARTICULARS	STANDALONE				CONSOLIDATED					
		Quarter ended 31.03.2021	Quarter ended 31.12.2020	Quarter ended 31.03.2020	Year ended March 31, 2021	Quarter ended March 31, 2020	Quarter ended 31.03.2021	Quarter ended 31.12.2020	Quarter ended 31.03.2020	Year ended March 31, 2021	Year ended March 31, 2020
		(audited)	(unaudited)	(unaudited)	(audited)	(audited)	(unaudited)	(unaudited)	(audited)	(audited)	
1.	Total income from operations	2.10	14.76	204.39	249.81	2,936.74	2.10	14.76	204.39	249.81	2,936.74
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or Extraordinary Items)	(26.71)	(5.27)	(12.38)	(51.98)	(38.24)	(28.08)	(5.52)	(13.02)	(52.87)	(39.90)
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(26.38)	(5.03)	(5.74)	(51.23)	(113.63)	(28.00)	(3.16)	(6.72)	(50.25)	(114.09)
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(26.38)	(5.03)	(5.74)	(51.23)	(113.63)	(28.20)	(3.16)	(6.72)	(50.45)	(114.09)
5.	Total comprehensive income for the period [comprising Profit/(Loss) for the period (after Tax) and other comprehensive income (after tax)]	(22.85)	(5.03)	(4.95)	(47.70)	(112.84)	(24.67)	(3.16)	(5.93)	(46.92)	(113.30)
6.	Equity Share Capital	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
7.	Other Equity excluding Revaluation Reserves	-	-	-	(1,053.81)	(1,006.11)	-	-	-	(5,152.52)	(5,459.22)
8.	Earning per share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) (not Annualized):										
	(a) Basic (in Rupees)	(3.81)	(0.								